



**Series : HMJ/5**

**SET – 3**

कोड नं.  
Code No. **56/5/3**

रोल नं.

Roll No.

--	--	--	--	--	--

परीक्षार्थी कोड को उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अवश्य लिखें।

Candidates must write the Code on the title page of the answer-book.

नोट	NOTE
(I) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ 15 हैं।	(I) Please check that this question paper contains 15 printed pages.
(II) प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए कोड नम्बर को छात्र उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर लिखें।	(II) Code number given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.
(III) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में 37 प्रश्न हैं।	(III) Please check that this question paper contains 37 questions.
(IV) कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें।	(IV) Please write down the Serial Number of the question in the answer-book before attempting it.
(V) इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न-पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10.15 बजे किया जाएगा। 10.15 बजे से 10.30 बजे तक छात्र केवल प्रश्न-पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका में कोई उत्तर नहीं लिखेंगे।	(V) 15 minute time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the students will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.



**रसायन विज्ञान (सैद्धान्तिक)**



**CHEMISTRY (Theory)**

निर्धारित समय : 3 घण्टे

Time allowed : 3 hours

अधिकतम अंक : 70

Maximum Marks : 70

**.56/5/3.**

**322C**



## सामान्य निर्देश :

निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका अनुपालन कीजिए :

- (i) प्रश्न-पत्र चार खण्डों में विभाजित है – क, ख, ग और घ ।
- (ii) इस प्रश्न-पत्र में 37 प्रश्न हैं । सभी प्रश्न अनिवार्य हैं ।
- (iii) **खण्ड-क** – प्रश्न-संख्या 1 से 20 तक अति लघु-उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है । प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए ।
- (iv) **खण्ड-ख** – प्रश्न-संख्या 21 से 27 तक लघु-उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है ।
- (v) **खण्ड-ग** – प्रश्न-संख्या 28 से 34 तक दीर्घ-उत्तरीय प्रकार-1 के प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है ।
- (vi) **खण्ड-घ** – प्रश्न-संख्या 35 से 37 तक दीर्घ-उत्तरीय प्रकार-2 के प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है ।
- (vii) कोई समग्र विकल्प नहीं है । तथापि, दो-दो अंकों के दो प्रश्नों में, तीन-तीन अंकों के दो प्रश्नों में तथा पाँच-पाँच अंकों के तीनों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिया गया है । ऐसे प्रश्नों में केवल एक ही विकल्प का उत्तर दीजिए ।
- (viii) इसके अतिरिक्त, आवश्यतानुसार, प्रत्येक अनुभाग और प्रश्न के साथ यथोचित निर्देश दिए गए हैं ।
- (ix) कैलकुलेटर अथवा लॉग टेबल के प्रयोग की अनुमति नहीं है ।



### **General Instructions :**

**Read the following instructions very carefully and strictly follow them :**

- (i) Question paper comprises four sections – A, B, C and D.
- (ii) There are **37** questions in the questions paper. All questions are compulsory.
- (iii) Section – A : Q. No. **1** to **20** are very short answer type questions carrying **one** mark each. Answer these questions in one word or one sentence.
- (iv) Section – B : Q. No. **21** to **27** are short answer type questions carrying **two** marks each.
- (v) Section – C : Q. No. **28** to **34** are long answer type-I questions carrying **three** marks each.
- (vi) Section – D : Q. No. **35** to **37** are long answer type-II questions carrying **five** marks each.
- (vii) There is NO overall choice in the question paper. However, an internal choice has been provided in **2** questions of **two** marks, **2** questions of **three** marks and all the **3** questions of **five** marks. You have to attempt only **one of the choices** in such questions.
- (viii) However, separate instructions are given with each section and question, wherever necessary.
- (ix) Use of calculators and log tables is NOT permitted.



### खण्ड : क

निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्न 1 से 5 के उत्तर दीजिए।

हैलोजनों की अपने-अपने आवर्ती में सबसे छोटी परमाणिक त्रिज्या होती है। फ्लुओरीन की परमाणु त्रिज्या नितान्त छोटी है। सभी हैलोजन – 1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती हैं। वे प्रबलतम ऑक्सीकारक हैं और इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एन्थैल्पी सबसे अधिक ऋणात्मक होती हैं। हैलोजनों में, फ्लुओरीन कई गुणधर्मों में असामान्य व्यवहार दर्शाती है। उदाहरण के लिए विद्युत ऋणात्मकता तथा आयनन एन्थैल्पी फ्लुओरीन के लिए अपेक्षित मानों से उच्च होते हैं जबकि आबध वियोजन एन्थैल्पी, गलनांक, क्वथनांक और इलेक्ट्रॉन लब्धि एन्थैल्पी अपेक्षित मानों से बहुत कम होते हैं। हैलोजन, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन हैलाइड ( $HX$ ) बनाती हैं और आपस में एक दूसरे के साथ संयोग करके  $XX'$ ,  $XX'_3$ ,  $XX'_5$  और  $XX'_7$  प्रकार के अनेकों यौगिक बनाती हैं जिन्हें अंतराहैलोजन कहते हैं।

1. हैलोजनों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एन्थैल्पी अधिकतम ऋणात्मक क्यों होती है ?
  2. अन्य हैलोजनों की तुलना में फ्लुओरीन असामान्य व्यवहार क्यों दर्शाती है ?
  3. हाइड्रोजन हैलाइडों (HF से HI) को उनके अपचायक लक्षण के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
  4. क्लोरीन की अपेक्षा फ्लुओरीन प्रबल ऑक्सीकारक क्यों है ?
  5. अंतराहैलोजन यौगिकों में X और X' के आकार क्या हैं ?
- प्रश्न संख्या 6 से 10 एक शब्द उत्तरीय हैं :
6. हाइड्रोकार्बन  $C_5H_{12}$  के प्रकाश-रासायनिक क्लोरीन से केवल एक मोनोक्लोराइड बनता है। यौगिक को पहचानिए।
  7. जलीय विलयन में  $(CH_3)_3N$  और  $(CH_3)_2NH$  में से कौन अधिक क्षारकीय है ?
  8. समपक्ष –  $[Pt(en)_2Cl_2]^{2+}$  और विपक्ष –  $[Pt(en)_2Cl_2]^{2+}$  में से कौन सा ध्रुवण घूर्णक है ?
  9. अति उच्च शुद्धता वाले अर्धचालकों को प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त परिष्करण विधि का नाम लिखिए।
  10. क्या  $\left[ CH_2 - CH = CH - CH_2 - CH_2 - \underset{\substack{| \\ CN}}{CH} \right]_n$  एक समबहुलक है अथवा सहबहुलक ?



## SECTION : A

Read the given passage and answer the questions **1 to 5** that follow :

The halogens have the smallest atomic radii in their respective periods. The atomic radius of fluorine is extremely small. All halogens exhibit – 1 oxidation state. They are strong oxidising agents and have maximum negative electron gain enthalpy. Among halogens, fluorine shows anomalous behaviour in many properties. For example electro negativity and ionisation enthalpy are higher for fluorine than expected whereas bond dissociation enthalpy, m.p and b.p and electron gain enthalpy are quite lower than expected. Halogens react with hydrogen to give hydrogen halides ( $\text{HX}$ ) and combine amongst themselves to form a number of compounds of the type  $\text{XX}'$ ,  $\text{XX}'_3$ ,  $\text{XX}'_5$  and  $\text{XX}'_7$  called inter-halogens.

1. Why halogens have maximum negative electron gain enthalpy ?
2. Why fluorine shows anomalous behaviour as compared to other halogens ?
3. Arrange the hydrogen halides (HF to HI) in the decreasing order of their reducing character.
4. Why fluorine is a stronger oxidizing agent than chlorine ?
5. What are the sizes of X and  $\text{X}'$  in the interhalogen compounds ?

Questions **6 to 10** are one word answers :

6. A hydrocarbon  $\text{C}_5\text{H}_{12}$  gives only one monochloride on photochemical chlorination. Identify the compound.
7. Out of  $(\text{CH}_3)_3\text{N}$  and  $(\text{CH}_3)_2\text{NH}$ , which one is more basic in aqueous solution ?
8. Out of Cis –  $[\text{Pt}(\text{en})_2\text{Cl}_2]^{2+}$  and Trans –  $[\text{Pt}(\text{en}_2)\text{Cl}_2]^{2+}$ , which one is optically active ?
9. Name the method of refining used to obtain semiconductor of very high purity.
10. Is  $\left[ \text{CH}_2 - \text{CH} = \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH} \right]_n$  a homopolymer or copolymer ?



प्रश्न सं. 11-15 बहविकल्पीय प्रश्न हैं :

11.  $\text{ZnSO}_4$  विलयन से 1 मोल Zn प्राप्त करने के लिए आवश्यक विद्युतधारा की मात्रा होगी

  - (a) 3F
  - (b) 2F
  - (c) 1F
  - (d) 4F

12. आयरन को जंग लगने से बचाने के लिए उसके पृष्ठ पर Zn का लेपन किया जाता है, क्योंकि

  - (a)  $E^\circ_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}} = E^\circ_{\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}}$
  - (b)  $E^\circ_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}} < E^\circ_{\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}}$
  - (c)  $E^\circ_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}} > E^\circ_{\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}}$
  - (d) इनमें से कोई भी नहीं

13. वेग स्थिरांक की इकाई निर्भर करती है

  - (a) अभिक्रिया की आण्विकता पर
  - (b) अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा पर
  - (c) अभिक्रिया की कोटि पर
  - (d) अभिक्रिया के ताप पर

14. संकुल ट्राइऐम्मीनट्राइ(नाइट्रिटो-O)कोबाल्ट (III) का सूत्र है

  - (a)  $[\text{Co}(\text{ONO})_3 (\text{NH}_3)_3]$
  - (b)  $[\text{Co}(\text{NO}_2)_3 (\text{NH}_3)_3]$
  - (c)  $[\text{Co}(\text{ONO}_2)_3 (\text{NH}_3)_3]$
  - (d)  $[\text{Co}(\text{NO}_2) (\text{NH}_3)_3]$

15. निम्नलिखित में से कौन डाइसैक्टराइड है ?

  - (a) ग्लूकोस
  - (b) स्टार्च
  - (c) सेलूलोस
  - (d) लैक्टोस

### **प्रश्न 16 से 20 :**

- (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही कथन हैं और कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या है।

(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही कथन हैं परन्तु कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं है।

(C) अभिकथन (A) सही है, परन्तु कारण (R) गलत कथन है।

(D) अभिकथन (A) गलत है, परन्तु कारण (R) सही कथन है।



Question No. 11-15 are multiple choice questions :



### Questions 16 to 20.

- (A) Both Assertion (A) and Reason (R) are correct statements, and Reason (R) is the correct explanation of the Assertion (A).

(B) Both Assertion (A) and Reason (R) are correct statements, but Reason (R) is not the correct explanation of the Assertion (A).

(C) Assertion (A) is correct, but Reason (R) is wrong statement.

(D) Assertion (A) is wrong, but Reason (R) is correct statement.

16. **Assertion (A)** : An ideal solution obeys Henry's law.  
**Reason (R)** : In an ideal solution, solute-solute as well as solvent-solvent interactions are similar to solute-solvent interaction.

17. **Assertion (A)** : Conductivity of an electrolyte increases with decrease in concentration.  
**Reason (R)** : Number of ions per unit volume decreases on dilution.



18. अभिकथन (A) : नाभिकरागी योगज अभिक्रियाओं के प्रति बेन्जैलिडहाइड, एथेनैल से कम अभिक्रियाशील है।
- कारण (R) : एथेनैल में त्रिविम प्रभाव के कारण अधिक बाधा होती है।
19. अभिकथन (A) : निम्न प्रचक्रण चतुष्फलकीय संकुल विरले ही देखे जाते हैं।
- कारण (R) : चतुष्फलकीय संकुलों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, युग्मन ऊर्जा से कम होती है।
20. अभिकथन (A) : ईथरों में C-O-C आबन्ध कोण चतुष्फलकीय कोण से जरा-सा कम है।
- कारण (R) : ईथरों में दो ऐल्किल समूहों के बीच प्रतिकर्षी अन्तःक्रिया के कारण।  $20 \times 1 = 20$


### खण्ड : ख

21. (a) संकुल  $[Fe(CN)_6]^{3-}$  का आईयूपीएसी नाम एवं संकरण लिखिए।  
(दिया है : Fe का परमाणु क्रमांक = 26)
- (b) उभदन्ती लिगन्ड और कीलेट लिगन्ड के बीच क्या अन्तर है ?  $1 + 1 = 2$
22. निम्नलिखित की संरचनाएँ बनाइए :
- (i)  $HClO_4$   
(ii)  $XeOF_4$   $1 + 1 = 2$
23. निम्नलिखित की भूमिका लिखिए :
- (a) सोने के निष्कर्षण में तनु NaCN की  
(b) लोहे के निष्कर्षण में CO की।  $1 + 1 = 2$

### अथवा

निम्न कोटि के कॉपर अयस्कों का निक्षालन कैसे सम्पन्न किया जाता है ? कॉपर धातु के शोधन में प्रयुक्त विधि का नाम लिखिए।  $2$

24. निम्नलिखित बहुलकों में एकलकों को पहचानिए :



$1 + 1 = 2$



18. **Assertion (A)** : Benzaldehyde is less reactive than ethanal towards nucleophilic addition reactions.  
**Reason (R)** : Ethanal is more sterically hindered.
19. **Assertion (A)** : Low spin tetrahedral complexes are rarely observed.  
**Reason (R)** : Crystal field splitting energy is less than pairing energy for tetrahedral complexes.
20. **Assertion (A)** : The C-O-C bond angle in ethers is slightly less than tetrahedral angle.  
**Reason (R)** : Due to the repulsive interaction between the two alkyl groups in ethers. **20 × 1 = 20**

### SECTION : B

21. (a) Write the IUPAC name and hybridisation of the complex  $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ .  
(Given : Atomic number of Fe = 26)  
(b) What is the difference between an ambidentate ligand and a chelating ligand ? **1 + 1 = 2**
22. Draw the structures of the following :  
(i)  $\text{HClO}_4$   
(ii)  $\text{XeOF}_4$  **1 + 1 = 2**
23. Write the role of  
(a) Dilute NaCN in the extraction of Gold.  
(b) CO in the extraction of Iron. **1 + 1 = 2**

**OR**

How is leaching carried out in the case of low grade copper ores ? Name the method used for refining of copper metal. **2**

24. Identify the monomers in the following polymers :  
(i)
- (ii)
- 1 + 1 = 2**



25. उदाहरण के साथ अधिशोषण को परिभाषित कीजिए। विषमांगी उत्प्रेरण में अधिशोषण की भूमिका क्या है ?  
अथवा  
ब्राउनी गति को परिभाषित कीजिए। कोलॉइडी कणों में ब्राउनी गति का कारण क्या है ? यह कोलॉइडी सॉल के स्थायित्व के लिए कैसे उत्तरदायी है ? 2

26. वाष्पशील घटकों वाले विलयन के लिए राउल्ट का नियम लिखिए। राउल्ट के नियम और हेनरी के नियम में क्या समानता है ? 2

27. प्रत्येक के लिए उचित उदाहरण के साथ निम्नलिखित पदों को परिभाषित कीजिए :  
(i) जीवाणुनाशी प्रतिजैविक  
(ii) खाद्य परिरक्षक 1 + 1 = 2

ੴ ਪ੍ਰਾਣੀ

28. निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपेक्षित अन्तिम उत्पादों की संरचनाएँ दीजिए :

  - प्रोपीन का हाइड्रोबोरॉन तत्पश्चात क्षारीय माध्यम में  $H_2O_2$  द्वारा ऑक्सीकरण।
  - 358 K पर 20%  $H_3PO_4$  के साथ गर्म किए जाने पर  $(CH_3)_3C-OH$  का निर्जलन।
  - HI के साथ  को गरम करने पर।


$3 \times 1 = 3$

अथवा

आप निम्नलिखित परिवर्तन कैसे सम्पन्न करेंगे ?

  - फीनॉल से 0-हाइड्रोक्सी बेन्जैलिडहाइड
  - मेथेनैल से एथेनॉल
  - फीनॉल से फेनिल एथेनोएट

$1 + 1 + 1 = 3$




30.  $\text{AlCl}_3$  का 0.01 m जलीय विलयन – 0.068 °C पर हिमीभूत हुआ। वियोजन की प्रतिशतता परिकलित कीजिए। [दिया है : जल के लिए  $K_f = 1.86 \text{ K kg mol}^{-1}$ ] 3

31. (i) DNA के जल-अपघटन उत्पाद क्या हैं ?  
(ii) क्या होता है जब D-ग्लूकोज की ब्रोमीन जल से अभिक्रिया होती है ?  
(iii) प्रोटीन की संरचना पर विकृतीकरण के क्या प्रभाव हैं ?  $1 + 1 + 1 = 3$



25. Define adsorption with an example. What is the role of adsorption in heterogeneous catalysis ? 2
- OR**
- Define Brownian movement. What is the cause of Brownian movement in colloidal particles ? How is it responsible for the stability of Colloidal Sol ? 2
26. State Raoult's law for a solution containing volatile components. What is the similarity between Raoult's law and Henry's law ? 2
27. Define the following terms with a suitable example in each :  
(i) Bacteriocidal antibiotics  
(ii) Food preservatives. **1 + 1 = 2**

### SECTION : C

28. Give the structures of final products expected from the following reactions :  
(i) Hydroboration of propene followed by oxidation with  $H_2O_2$  in alkaline medium.  
(ii) Dehydration of  $(CH_3)_3C-OH$  by heating it with 20%  $H_3PO_4$  at 358 K.  
(iii) Heating of  with HI. **3 × 1 = 3**
- OR**
- How can you convert the following ?  
(i) Phenol to o-hydroxy benzaldehyde.  
(ii) Methanal to ethanol  
(iii) Phenol to phenyl ethanoate. **1 + 1 + 1 = 3**

29. Identify A, B, C, D, E and F in the following :
- $$\begin{array}{c} E \xleftarrow[H_2O]{\text{Mg}}_{\text{dry ether}} D \xleftarrow{\text{CH}_3-\underset{\substack{| \\ \text{CH}_3}{\text{CH}}-\text{CH}_2-\text{Br}} A \xrightarrow[\text{Na/dry ether}]{\text{alcoholic KOH}, \text{HBr}} B \\ \downarrow \text{NaOC}_2\text{H}_5 \\ F \end{array}$$
- 6 × ½ = 3**

30. A 0.01 m aqueous solution of  $AlCl_3$  freezes at  $-0.068^\circ\text{C}$ . Calculate the percentage of dissociation. [Given :  $K_f$  for Water =  $1.86 \text{ K kg mol}^{-1}$ ] 3
31. (i) What are the hydrolysis products of DNA ?  
(ii) What happens when D-glucose is treated with Bromine water ?  
(iii) What is the effect of denaturation on the structure of proteins ? **1 + 1 + 1 = 3**



32. श्रेणीक्रम में संयोजित दो वैद्युतअपघटनी सेलों A और B जिनमें  $ZnSO_4$  और  $CuSO_4$  वैद्युतअपघट्य भरे हैं, में 2A की स्थिर विद्युतधारा प्रवाहित करने पर सेल B के कैथोड पर 2g Cu निष्केपित हुआ। विद्युतधारा कितने समय तक प्रवाहित की गई ? सेल A के कैथोड पर Zn की कितनी मात्रा निष्केपित हुई ? [परमाणु द्रव्यमान : Cu = 63.5 g mol<sup>-1</sup>, Zn = 65 g mol<sup>-1</sup>; 1F = 96500 C mol<sup>-1</sup>] 3

33. द्रवविरागी सॉल और द्रवरागी सॉल में तीन अन्तर दीजिए। 3

अथवा

निम्नलिखित पदों को परिभाषित कीजिए :



34. कारण दीजिए :

  - ऐनिलीन फ्रीडेल-क्राफ्ट्स अभिक्रिया नहीं करती ।
  - ऐरोमैटिक प्राथमिक ऐमीनों को गैब्रिएल थैलामाइड संश्लेषण विधि द्वारा नहीं बनाया जा सकता है ।
  - अमोनिया की तुलना में ऐलीफैटिक ऐमीन प्रबल क्षारक होते हैं ।

ਖਣਡ : ਘ

35. (a) जब बेन्जैलिड्हाइड निम्नलिखित अभिकर्मकों के साथ अभिक्रिया करता है तो निर्मित उत्पादों को लिखिए :

  - तनु NaOH की उपस्थिति में  $\text{CH}_3\text{CHO}$
  - $\text{H}_2\text{N} - \text{NH} - \text{C}_6\text{H}_5$
  - सान्द्र NaOH



(b) निम्नलिखित के मध्य विभेद कीजिए :

  - $\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH} - \text{CO} - \text{CH}_3$  और  $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CO} - \text{CH} = \text{CH}_2$
  - बेन्जैलिड्हाइड और बेन्जोइक अम्ल


$3 + (1 + 1) = 5$

अथवा

- (a) निम्नलिखित में अन्तिम उत्पादों को लिखिए :



- (b) निम्नलिखित को उनकी नाभिकरागी योगज अभिक्रियाओं के प्रति बढ़ती अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए :



- (c) ऐसीटैलिहाइड के  $2, 4 - \text{डी.एन.पी. व्युत्पन्न}$  की संरचना बनाइए।  $3 + 1 + 1 = 5$



32. When a steady current of 2A was passed through two electrolytic cells A and B containing electrolytes  $\text{ZnSO}_4$  and  $\text{CuSO}_4$  connected in series, 2 g of Cu were deposited at the cathode of cell B. How long did the current flow ? What mass of Zn was deposited at cathode of cell A ?  
[Atomic mass : Cu = 63.5 g mol<sup>-1</sup>, Zn = 65 g mol<sup>-1</sup>; 1F = 96500 C mol<sup>-1</sup>] 3
33. Write three differences between lyophobic sol and lyophilic sol. 3
- OR**
- Define the following terms :
- (i) Protective colloid    (ii) Zeta potential    (iii) Emulsifying agent  
 $1 + 1 + 1 = 3$
34. Give reasons :  
(i) Aniline does not undergo Friedal-Crafts reaction.  
(ii) Aromatic primary amines cannot be prepared by Gabriel's phthalimide synthesis.  
(iii) Aliphatic amines are stronger bases than ammonia.  $3 \times 1 = 3$

### SECTION : D

35. (a) Write the products formed when benzaldehyde reacts with the following reagents :  
(i)  $\text{CH}_3\text{CHO}$  in presence of dilute NaOH  
(ii)  $\text{H}_2\text{N} - \text{NH}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{NH}_2$   
(iii) Conc. NaOH
- (b) Distinguish between following :  
(i)  $\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH} - \text{CO} - \text{CH}_3$  and  $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CO} - \text{CH} = \text{CH}_2$   
(ii) Benzaldehyde and Benzoic acid.  $3 + (1 + 1) = 5$
- OR**
- (a) Write the final products in the following :
- (i) 
$$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3-\text{C}=\text{O} \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array} \xrightarrow[\text{Conc HCl}]{\text{Zn/Hg}}$$
- (ii) 
$$\text{C}_6\text{H}_5-\text{COONa} \xrightarrow[\Delta]{\text{NaOH/CaO}}$$
- (iii) 
$$\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CN} \xrightarrow[\text{(b) H}_3\text{O}^+]{\text{(a) DIBAL-H}}$$
- (b) Arrange the following in the increasing order of their reactivity towards nucleophilic addition reaction :  
 $\text{CH}_3\text{COCH}_3$ ,  $\text{HCHO}$ ,  $\text{CH}_3\text{CHO}$ ,  $\text{C}_6\text{H}_5-\text{COCH}_3$
- (c) Draw the structure of 2, 4 DNP derivative of acetaldehyde.  $3 + 1 + 1 = 5$



36. (a) एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 25% पूर्ण होने में 40 मिनट लगते हैं। वेग स्थिरांक का मान परिकलित कीजिए। कितने समय में अभिक्रिया 80% पूर्ण होगी ?
- (b) अभिक्रिया कोटि को परिभाषित कीजिए। उस परिस्थिति को लिखिए जिसमें एक द्विअणुक अभिक्रिया प्रथम कोटि बलगतिकी का पालन करती है। 3 + 2 = 5

**अथवा**

- (a) एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 50% पूर्ण होने में 300 K पर 30 मिनट लगते हैं और 320 K पर 10 मिनट। अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा ( $E_a$ ) परिकलित कीजिए।  
 $(R = 8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1})$
- (b) संघट्टों के प्रभावी संघट्ट होने के लिए दो परिस्थितियाँ लिखिए।
- (c) जटिल अभिक्रिया के प्रति अभिक्रिया की कोटि और आण्विकता किस प्रकार से भिन्न होती हैं ?  
[दिया है :  $\log 2 = 0.3010$ ,  $\log 3 = 0.4771$ ,  $\log 4 = 0.6021$ ,  $\log 5 = 0.6991$ ]

**3 + 1 + 1 = 5**

37. (a) कारण दीजिए :


- (i) संक्रमण धातुएँ तथा इनके यौगिक उत्प्रेरकीय सक्रियता दर्शाते हैं।
- (ii) लैन्थेनॉयड तत्त्वों के मिश्रण का पृथक्करण कठिन होता है।
- (iii) Zn, Cd और Hg नरम तथा निम्न गलनांक वाली होती हैं।
- (b) निम्नलिखित के विरचन लिखिए :

- (i)  $\text{Na}_2\text{CrO}_4$  से  $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$
- (ii)  $\text{MnO}_2$  से  $\text{K}_2\text{MnO}_4$  3 + 2 = 5

**अथवा**

- (a) निम्नलिखित के लिए कारण दीजिए :

- (i) जलीय विलयन में  $\text{Ti}^{3+}$  रंगीन है जबकि  $\text{Sc}^{3+}$  रंगहीन है।
- (ii)  $\text{Cr}^{2+}$  एक प्रबल अपचायक है।
- (b) लैन्थेनॉयडों और ऐन्टिनॉयडों के रसायन के बीच दो समानताएँ लिखिए।
- (c) निम्नलिखित आयनिक समीकरण पूर्ण कीजिए :



**2 + 2 + 1 = 5**



36. (a) A first order reaction is 25% complete in 40 minutes. Calculate the value of rate constant. In what time will the reaction be 80% completed ?
- (b) Define order of reaction. Write the condition under which a bimolecular reaction follows first order kinetics. **3 + 2 = 5**

**OR**

- (a) A first order reaction is 50% complete in 30 minutes at 300 K and in 10 minutes at 320 K. Calculate activation energy ( $E_a$ ) for the reaction.  
( $R = 8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ )
- (b) Write the two conditions for collisions to be effective collisions.
- (c) How order of reaction and molecularity differ towards a complex reaction ?


[Given :  $\log 2 = 0.3010$ ,  $\log 3 = 0.4771$ ,  $\log 4 = 0.6021$ ,  $\log 5 = 0.6991$ ]

**3 + 1 + 1 = 5**

37. (a) Give reasons :
- (i) Transition metals and their compounds show catalytic activities.
- (ii) Separation of a mixture of Lanthanoid elements is difficult.
- (iii) Zn, Cd and Hg are soft and have low melting point.
- (b) Write the preparation of the following :
- (i)  $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$  from  $\text{Na}_2\text{CrO}_4$
- (ii)  $\text{K}_2\text{MnO}_4$  from  $\text{MnO}_2$  **3 + 2 = 5**

**OR**

- (a) Account for the following :
- (i)  $\text{Ti}^{3+}$  is coloured whereas  $\text{Sc}^{3+}$  is colourless in aqueous solution.
- (ii)  $\text{Cr}^{2+}$  is a strong reducing agent.
- (b) Write two similarities between chemistry of lanthanoids and actinoids.
- (c) Complete the following ionic equation :



**2 + 2 + 1 = 5**

